

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 नवम्बर 2018 — कार्तिक 15, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2018

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 10963/4097/(384)/21-ब/छ. ग./18. — राज्य सरकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक-28/चार/2018/5136 दिनांक 31-10-2018 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-10062/3544/21-ब/छ. ग./18, दिनांक 09-10-2018 में संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, निम्न सूची के कालम नं. (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विधान सभा चुनाव-2018 के शांतिपूर्वक सम्पादन हेतु उनके नाम के समक्ष कालम नं. (4) में दर्शित क्षेत्र के लिए उन्हें विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करती है और उन्हें संहिता के अधीन विशेष कार्यपालिका दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करती है, अर्थात् :-

विधान सभा निर्वाचन 2018, सेक्टर/जोनल हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी के नाम

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	क्षेत्र के नाम जहाँ पर उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है
1	2	3	4
जिला सरगुजा			
1	श्री कैलाश सिंह पैकरा	उप सचालक, उद्यान विभाग, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
2	श्री संदीप रवि	उप अभियंता छ.ग ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण अंबिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
3	श्री माणिकचन्द्र	सहायक आयुक्त, पशु चिकित्सा विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
4	अशोक कुमार जैन	उप अभियंता जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
5	श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे	उप अभियंता जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
6	श्री सतीश रवि	उप अभियंता , नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
7	श्री राम कुमार भगत	उप अभियंता , जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
8	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	उप अभियंता , नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
9	श्री शांति लाल टोप्पो	सहायक अभियंता, लो. नि. वि. रा. रा.	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

10	श्री बसंत कुजूर	संपदा प्रबंधक छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
11	श्री गहबर राम पैकरा	सहायक अभियंता छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि.अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
12	श्री सूरज प्रताप सिंह	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
13	श्री लक्ष्मी नारायण राठौर	उप अभियंता, जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
14	श्री अभिषेक गुप्ता	उप अभियंता, गृह निर्माण मंडल, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
15	श्री अशोक प्रकाश निरंजन	उप अभियंता जल संसाधन, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
16	श्री पी. आर. एक्का	परियोजना अधिकारी, म. एवम बा. वि. अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
17	श्री नजरियुस एक्का	सहायक अभियंता लो.नि.वि. अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
18	श्री डी.पी.पटेल	रेंज आफिसर वन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
19	श्री देव सिंह	सहायक अभियंता, छ.ग.ग्रामीण सहायक विकास अभिकरण अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
20	श्री गंगासागर पैकरा	उप अभियंता गृह निर्माण मण्डल, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
21	श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग सीतापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
22	श्री एम.आर.देवांगन	जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

जिला जशपुर

1	श्री एम.एल. झाडे	अ.वि.अ. (कृषि) जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
2	श्री सी.सी. मिश्रा	प्राध्यापक, शा. एनईएस महाविद्यालय	सम्पूर्ण जिला जशपुर
3	श्री मिखाइल एक्का	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
4	श्री पी.के. हरीश	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत-जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
5	श्री एल कुजूर	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
6	श्री रामकुमार वर्मा	सहायक अभियंता गृह निर्माण मण्डल जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
7	श्री फ्रांसिस लकड़ा	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कुनकुरी	सम्पूर्ण जिला जशपुर
8	श्री राकेश कुमार पैकरा	अ.वि.अ. (कृषि) पत्थलगांव	सम्पूर्ण जिला जशपुर
9	श्री बी.आर. ध्रुव	जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
10	श्री एस.सी. कछवाहा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी पत्थलगांव	सम्पूर्ण जिला जशपुर

जिला रायगढ़

1	श्री लोहर साय भगत	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
2	श्री जी. आर. जाटवर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
3	श्री जवाहर लाल सिदार	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
4	श्री डी. के. मकवाना	सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
5	श्री दिनेश कुमार कुरें	पशु चिकि. सहा. सल्यज्ञ, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
6	श्री शिव दयाल मानिक	कृषि विकास अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
7	श्री अखिलेश गुप्ता	उपयंत्री, नगर पालिक निगम रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
8	श्री एस.एन. देवांगन	अ.वि.अ., पी.एम.जी.एस.वॉय. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
9	श्री उत्तरा कुमार सिदार	सहा. वि.खं.शि.अधि., पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
10	श्री आर.एन. नौरंगे	वि.खं.शि.अ., बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

11	श्री एल.एम भगत	उप. संचा. कृषि, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
12	श्री बी.एल. धुव	अ.वि.अ., नेशनल हाईवे रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
13	श्री डी.एस. झाप	उद्यान अधीक्षक सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
14	श्री जे.एस. वारे	अ.वि.अ., जल संसाधन सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
15	श्री रोहित कुमार बरिहा	कृषि विकास अधिकारी, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
16	श्री टी.आर. गुप्ता	अनु. अधि., जल संसाधन रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
17	श्री एन.आर. भगत	सहा. अभि., लो.नि.वि.से. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
18	श्री प्रिंस अवधिया	सहा.अभि., जल संसाधन विभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
19	डॉ. चंद्रशेखर पटेल	सहा. प्राध. शास. महाविद्यालय, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
20	श्री ईश्वर सिंह पैकरा	कृषि विकास अधिकारी, पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
21	श्री संतोष कुमार सिंघई	सहा.अभि., मि.मा.बां.न. संभाग - 6 खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
22	श्री अशोक कुमार बनाफर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
23	डॉ रमेश कुमार मनहर	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज्ञ, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
24	श्री आर.के. बागे	वाणिज्य कर अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
25	श्री पी.आर. पटेल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
26	श्री पी.पी. एस. पैकरा	सहा.अभि., लोक स्वा.यांत्रिकी धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
27	श्री जितेन्द्र प्रसाद	प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. बाकारुमा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूची

1	श्री दिनेश कुमार कुर्रे	पशु चिकि. सहा. सल्यज्ञ, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
2	श्री सुरेश कुमार श्रीवास	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
3	श्री खेमचंद चौधरी	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
4	श्री मिनकेतन राठिया	उप अभियंता, विधुत यांत्रिकी जल संसाधन विभाग, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
5	श्री नितेश कुमार राठिया	उप अभियंता, विधुत यांत्रिकी जल संसाधन विभाग, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
6	श्री ईश्वर सिंह पैकरा	कृषि विकास अधिकारी, पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
7	डा. राजेन्द्र सिंह	प्राचार्य, शा. लोचन प्रसाद पाण्डेय महा. सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
8	श्री कार्तिक राम कैवर्त्य	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
9	श्री राहुल पटेल	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
10	डॉ धनीराम प्रधान	पशु चिकित्सा, सहायक शल्यज्ञ, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
11	डॉ रमेश कुमार मनहर	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज्ञ, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
12	श्री महेश कुमार पटेल	सहायक संचालक, सचिव, प्रशिक्षण केन्द्र रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
13	श्री आर.के. होता	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
14	श्री मैनेजर सिंह सिदार	उप अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
15	श्री पी.पी. एस. पैकरा	सहा.अभि., लोक स्वा.यांत्रिकी धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
16	श्री जितेन्द्र प्रसाद	प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. बाकारुमा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
17	श्री हरिश ठाकुर	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
18	श्री सुखलाल भगत	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

जिला कोरबा

1	श्री बी पी भरद्वाज	परियोजना अधिकारी जिला पंचायत कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
2	श्री संजु सिंह	सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
3	डॉ के के सिंह	सहायक श्रम पदाधिकारी श्रम कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
4	श्री एस रहमान	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
5	श्री विजय कुमार चौहान	क्षेत्र सायोजक आदिवासी विकास विभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
6	श्री एम एस ऊईके	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
7	श्री गिरीश टिकारिहा	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
8	श्री राजेंद्र कश्यप	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास	सम्पूर्ण जिला कोरबा
9	श्री जितेंद्र प्रसाद	सहायक अभियंता क्रेड़ा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
10	श्री एम के त्रिपाठी	सहायक खाद्य अधिकारी	सम्पूर्ण जिला कोरबा
11	श्री अभिमन् नू टेकाम	सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
12	श्री एच ईकका	सहायक अभियंता जल संसाधन पाली	सम्पूर्ण जिला कोरबा
13	डॉ आशुतोष लाल	सहायक प्राध्यापक शा मु प महा कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
14	श्री बी आर बंजारे	परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास	सम्पूर्ण जिला कोरबा

जिला बिलासपुर

1	श्री राजेश सिंह राणा	सहायक अभियंता, कार्या. कार्यपालन, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री पी एल वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग बेलगहना संभाग पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री के.के. सिंह,	सहायक अभियंता, कार्या. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री जे. आर. भगत	परियोजना प्रशासक, कार्यालय परियोजना प्रशासक, हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री अनिल चंद राही,	सहायक अभियंता, कार्या. कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
6	श्री राजेश कुमार दिवाकर	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
7	श्री नितिन मेश्राम	वरिष्ठ भू-जल विद, कार्यालय वरिष्ठ भू-जल विद, भू-जल सर्वे, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

8	श्री टी.आर.शर्मा	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
9	श्री आनंद राम कुम्भकार,	सहायक अभियंता, कार्या. मुख्य अभियंता हसदेव बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
10	श्री संत दास मानिकपुरी	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनी माता बांगो परियोजना, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
11	श्री एस.आर. धीवर	सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
12	श्री मुकेश कुमार साहू	प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बिल्हा, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
13	श्री एस.आर. सोनाने,	कार्यपालन अभियंता, कार्या. मुख्य अभियंता हसदेव बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
14	श्री एस.के. तिवारी	सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
15	श्री शरद श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा गौरेला	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
16	श्री एम. आर. निकोसे,	कार्यपालन अभियंता, कार्या. मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
17	श्री संजय शर्मा	कार्यपालन अभियंता, कार्या. मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
18	श्री सचिन कुमार पराते	सहायक अभियंता, कार्यालय वरिष्ठ भू-जल विद, भू-जल सर्वे, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
19	श्री गिरीश कुमार फतनानी	सहायक अभियंता, कार्यालय वरिष्ठ भू-जल विद, भू-जल सर्वे, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
20	श्री एस. एल. उईके,	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
21	श्री अशोक कुमार साहू,	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
22	श्री प्रवीण कुमार दिवान	सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
23	श्री वासुदेव नागप्पा	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन, हसदेव कछार बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
24	श्री सुमन सिंह क्षत्री	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
25	श्री एस.सिंह डोंगरे	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

26	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
27	श्री पी.एल. पोडवाल	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा पेण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
28	श्री एस.के.नेताम	सहायक अभियंता कार्या. कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
29	श्री ए.के.तिवारी	सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
30	श्री हरेन्द्र कुमार,	व्याख्याता, शासकीय पाॅलिटेक्निक बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
31	श्री संजय गुप्ता,	सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूची

1	श्री गिरजाशंकर सिंह	प्रोफेसर, शासकीय इंजीनियरिंग महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री संजय कुमार सिंघई	प्रोफेसर, शासकीय इंजीनियरिंग महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री गजेन्द्र कुमार अग्रवाल	प्रोफेसर, शासकीय इंजीनियरिंग महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री मोहनलाल अग्रवाल	प्रोफेसर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री गौरव साहू	सहायक प्राध्यापक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
6	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	सहायक प्राध्यापक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
7	श्री हैरी जाज	सहायक प्राध्यापक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
8	श्री सौमित्र तिवारी	सहायक प्राध्यापक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
9	श्री यशवंत पटेल	सहायक प्राध्यापक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
10	श्री हामिद अब्दुल्ला	सहायक प्राध्यापक, शासकीय ई. राघवेन्द्रराव स्ना. विज्ञान महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
11	डा. संतराम कमलेश	प्राचार्य, शासकीय ई. राघवेन्द्रराव स्ना. विज्ञान महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
12	डा. संतोष गुप्ता	प्राध्यापक, शासकीय ई. राघवेन्द्रराव स्ना. विज्ञान महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
13	डा. मनेन्द्र मेहता	प्राध्यापक, शासकीय ई. राघवेन्द्रराव स्ना. विज्ञान महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
14	डा. ए.एन.बहादुर	प्राध्यापक,	

जिला मुंगेली

1	श्री के.के. शर्मा	उपयंत्री जल संसाधन विभाग लोरमी	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
2	श्री पी.एल. पाटनवार	उप यंत्री जल संसाधन विभाग लोरमी	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
3	श्री दिनेश कुमार ब्यौहार	उप संचालक कृषि, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली

जिला जांजगीर-चांपा

1	श्री अजीत बघेल	खादय सुरक्षा अधिकारी खगद्व सुरक्षा एव औषधि	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
---	----------------	--------------------------------------------	-----------------------------

2	डॉ राजकुमार जायसवाल	सहायक शल्यज्ञ पशु पशु चिकित्सा सेवाएं	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
3	श्री एम आर तिग्गा	उप संचालक कृषि	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
4	श्री किशोर कुमार तरूण	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
5	श्री समीर सौरभ	कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास अधिकारी सक्ती	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
6	डॉ यशपाल धुव	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
7	श्री नरेश प्रसाद त्यागी	सहायक प्राध्यापक	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
8	श्री सादराम सिदार	प्राचार्य शा उ मा वि खरकेना	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
9	श्री लेखराम पटेल	प्राचार्य शा उ मा वि किरारी	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
10	श्री आर के चन्दा	सहायक अध्यापक शा महा वि डभरा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
11	श्री सुधीर सराफ	जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
12	श्री हिमांशु मिश्रा	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बम्हनीडीह	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
13	डा जैनेन्द्र सूर्यवंशी	सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा सेवाएं	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
14	श्री एस.आर.देवांगन	प्राचार्य शा उ.मा.शाला खुंटीघाट	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
15	श्री एच.एस.चंदेल	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.खरौद	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
16	श्री पी.एल.कौशिक	प्राचार्य शा उ.मा.शाला, राहौद	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
17	श्रीमती सीता शुक्ला,	नायब तहसीलदार, एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी जांजगीर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा
18	सुश्री नेत्रप्रभा सिदार	नायब तहसीलदार, एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी पामगढ़	सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा

जिला महासमुंद

1	श्री नागेन्द्र निराला,	उप अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सरायपाली, महासमुंद	सम्पूर्ण जिला महासमुंद
2	श्री अदिराम जाटव	उप अभियंता, अ.वि.अ. जल संसाधन, उपसंभाग 2 बागबाहरा	सम्पूर्ण जिला महासमुंद

जिला बलौदाबाजार

1	श्री मनीष यादव	उप अभियंता, नगर पंचायत टुण्डरा	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
2	श्री यू.के. सुखदेव	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
3	श्री विवेक रंजन तिकी	उप अभियंता, नगर पंचायत भटगांव	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
4	श्री गोविन्द सिंह	वन परिक्षेत्र अधिकारी, सोनाखान, बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
5	श्री श्याम दास मानिकपुरी	विकास खण्ड स्रोत समन्वयक बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
6	श्री उदय सिंह ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
7	श्री आर.के. गुप्ता	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार

8	श्री मोनेश कुमार साहू	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि संरक्षण बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
9	श्री भेखज बिसेन	सहायक अभियंता, नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
10	श्री मयंक साहू	उप अभियंता, नगर पंचायत कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
11	श्री एच आर यादव	उप-अभियंता, जल प्रबंध उपसंभाग क्र 7 बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
12	श्री ओंकार कैवर्त	उप-अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पलारी	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
13	श्री सुभाष पाण्डेय	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
14	श्री नेमीचंद वर्मा	उप अभियंता, नगर पंचायत लवन	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
15	श्री जयइंद्र कँवर	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), कृषि विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
16	श्री अशोक कुमार वर्मा	विकास खण्ड शिक्षा अधि, विकासखण्ड बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
17	श्री विपिन जैन	जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास, बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
18	श्री भोलाराम पटेल	उप अभियंता, नगर पालिका बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
19	श्री नरेन्द्र ठाकुर	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिमगा	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
20	श्री नरेन्द्र कुमार देशमुख	सहायक अभियंता, मु.मं.ग्रा.स.यो. बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
21	श्री अजीत तिग्गा	कार्यपालन अभियंता, नगर पालिका परिषद, भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
22	श्री अमरनाथ अवधिया	उप अभियंता, नगर पालिका परिषद् भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार

जिला रायपुर

1	श्री नितिन कुम्भारे	अधीक्षण अभियंता, कार्या. अधीक्षण अभियंता वि/यां मंडल लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
2	श्री जी.आर. स्वर्णकार	सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, वि./यो. उप खण्ड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
3	श्री अनुप प्रताप एक्का	उप संचालक, कार्या. छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
4	श्री गिरधारी लाल साहू	सहायक अभियंता, कार्या. कार्यपालन अभियंता, म ज प डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
5	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी	सहायक अभियंता, कार्या. छग राज्य कृषि विपणन	सम्पूर्ण जिला रायपुर
6	श्री संतराम साहू	सहायक अभियंता, कार्या. छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर

7	श्री नरसिंह राठौर	कार्यपालन अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
8	श्री सुरेन्द्र कुमार डोंगरे	सहायक कृषि यंत्री, कार्या. कृषि यंत्री, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
9	श्री हितेश ठाकुर	सहायक अभियंता, कार्या. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
10	श्री इमरान खान	सहायक अभियंता, कार्या. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
11	श्री देवनारायण वर्मा	सहायक अभियंता, कार्या. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल-1, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
12	श्री एन.आर.के. चन्द्रवंशी,	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
13	डॉ. अजय कुमार गर्ग	संयुक्त संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
14	श्री दुर्गेश कुमार मिश्रा	सहायक अभियंता, कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
15	श्री लाल चन्द्र तामकर,	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
16	श्री एम. एल. सिंह	सहायक अभियंता, कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
17	श्री अजय कुमार गेडाम	अधीक्षण अभियंता, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
18	श्री गणपति पवार	अधीक्षण अभियंता, कार्या. अधीक्षण अभियंता, लो नि वि सेतु निर्माण मण्डल, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
19	श्री जेड. एम. खान	सहायक अभियंता, कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
20	श्री हिराधर पटेल	अधीक्षण यंत्री, कार्या. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सिविल लाईन, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
21	श्री सेशनारायण शुक्ला	अधीक्षण यंत्री, कार्या. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सिविल लाईन, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
22	श्री पंकज कुमार मिश्रा	सहायक अभियंता, विद्युत/सिविल, कार्या. कार्यपालन अभियंता छ ग गृह निर्माण मण्डल, संभाग-2, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
23	श्री नितेश कश्यप	सहायक अभियंता, विद्युत/सिविल, कार्या. कार्यपालन अभियंता छ ग गृह निर्माण मण्डल, संभाग-2, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
24	श्री अभिषेक मोहन तिवारी	सहायक अभियंता, कार्या. कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, राजधानी,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
25	श्री श्याम पटेल	कार्यपालन अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
26	श्री वैभव कांत प्रधान	सहायक अभियंता, अभि/सि/वि/यां/लोकस्वा/आर्कि, कार्या. कार्यपालन अभियन्ता गृह निर्माण मंडल, सेजबहार, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर

27	श्री रविन्द्र वर्मा	सहायक अभियंता, अभि/सि/वि/यां/लोकस्वा/आर्कि, कार्या. कार्यपालन अभियन्ता गृह निर्माण मंडल, सेजबहार, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
28	श्री महिमा शंकर पांडेय	सहायक अभियंता, कार्या. मुख्य कार्यपान अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
29	श्री विद्या सागर चौबे	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
30	श्री मनीष कश्यप	अधीक्षण अभियंता, कार्या. मुख्यालय छ ग पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण भवन, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
31	श्री ए. अयाज	उप संचालक, हथकरघा ग्रामोद्योग, अटल नगर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
32	श्री अशोक तिवारी	सहायक आयुक्त, राज्य कर वृत्त 1, सिविल लाईन रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
33	श्री जे.के. कुर्रे,	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
34	श्री संजय टेम्भुरने	कार्यपालन अभियंता पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	सम्पूर्ण जिला रायपुर
35	श्री ए.के. शर्मा	उप संचालक रेशम,, ग्रामोद्योग संचालनालय, अटल नगर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
36	श्री डी.पी. मनहर	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय, अटल नगर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
37	श्री सुनील राजगिरे	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
38	श्री श्रीराम मीणा	संयुक्त संचालक रेशम, ग्रामोद्योग संचालनालय, अटल नगर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
39	श्री मोहन सिंह	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रमुख अभियंता लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
40	श्री के.के. पाण्डेय	उप संचालक उद्धानिकी, कार्या. संचालनालय उद्धानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
41	श्री परमेश्वर प्रसाद जायसवाल	सहायक अभियंता, कार्या. छग राज्य कषि विपणन बोर्ड आचलिक कार्यालय, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
42	श्री सरद चन्द्र कक्कड़	सहायक अभियंता, कार्या. कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, क्र.-1, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
43	श्री जी.के. स्वर्णकार	स्वर्णकार, कार्यपालन अभियंता, छ.ग. स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
44	श्री नुरेन्द्र कुमार पटेल,	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, आयुक्त राज्य कर, वृत्त-1, रायपुर ,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
45	श्री सच्चिदानंद शास्त्री	प्रबंधक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर

46	श्री आई.एम. शेख	अनुविभागीय अधिकारी, कार्या. कार्यपालन अभियंता, म.ज.प., द्वितीय चरण, कार्य संभाग, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
47	श्री एस.के. डे	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
48	श्री पूनम चंद अग्रवाल	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग-1, रायपुर,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
49	श्री टी.आर. मेश्राम	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर

जिला गरियाबंद

1	श्री सुमीत गोस्वामी	उप अभियंता, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
2	श्री आर आर वैष्णव	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
3	श्री हितेन्द्र मेश्राम	सहायक संचालक उद्यानिकी गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
4	श्री फागुराम कश्यप	सहायक भूमि संरक्षक अधिकारी जिला - गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
5	श्री ओमप्रकाश	वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
6	श्री एम के साहू	उप अभियंता जनपद पंचायत छुरा	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
7	श्री शेर सिंह बघेल	उप अभियंता जनपद पंचायत गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
8	श्री निमेश कुमार साहू	उप अभियंता ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा जनपद पंचायत गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
9	श्री डी.एस. सोम	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा जनपद पंचायत छुरा	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
10	श्री बी.एस. चंद्राकार	उप अभियंता, ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा, जनपद पंचायत गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
11	श्री आइ.एल.धुव	उप अभियंता, ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा, जनपद पंचायत छुरा	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
12	श्री बी आर देवांगन	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग देवभोग	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद

जिला धमतरी

1	श्री ए.के.पालड़िया	का. अभियंता जल संसाधन संभाग रुद्री धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
2	श्री आदित्य चन्द्राकर,	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
3	श्री चन्द्र कुमार यादव	उप अभियंता, म.ज.प. बांध उप संभाग क्र 01, मेचका	सम्पूर्ण जिला धमतरी
4	श्री वरुण कुमार मण्डावी	उप अभियंता, म.ज.प. बांध उप संभाग क्र 01, मेचका	सम्पूर्ण जिला धमतरी
5	श्री विनय कुमार देवांगन	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
6	श्री जय प्रकाश साहू	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
7	श्री अनुज राम साहू,	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी,	सम्पूर्ण जिला धमतरी
8	श्री आर . के . गुप्ता	प्राचार्य शा.उ.मा.वि.सलोनी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
9	श्री के. एन.पाण्डेय	प्राचार्य शा.उ.मा.वि.बेलरगाँव	सम्पूर्ण जिला धमतरी
10	श्री जगदीश राम पुरैना,	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला धमतरी

11	श्री मोहम्मद शोएब,	उप अभियंता , प्र.म.ग्रा.स.यो. धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
12	श्री धनंजय राम देवांगन	सहायक अभियंता , प्र.म.ग्रा.स.यो. धमतरी,	सम्पूर्ण जिला धमतरी
13	श्री राजेश पदमवार	कार्या.अभि.न.पा.नि.धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
14	श्री मणीशंकर कंवर,	उप अभियंता, भारी संयंत्र रूद्री,	सम्पूर्ण जिला धमतरी
15	श्री तुलसी राम धुव	सहा.अभि.केरडा	सम्पूर्ण जिला धमतरी
16	श्री के. के. साहू	उप अभियंता, जल प्रबन्ध सम्भाग, रूद्री,	सम्पूर्ण जिला धमतरी
17	श्री राय सिंह साक्षी,	सहायक अभियंता, जल प्रबंध सभाग क्रमांक रूद्री,	सम्पूर्ण जिला धमतरी
18	श्री अशोक कुमार बोपचे ,	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग बांध सभाग रूद्री,	सम्पूर्ण जिला धमतरी
19	श्री निशीथ कुमार पांडे,	सहा.अभि.कार्या.अधी.अभि.म.ज.प.बा.सं.रूद्री,	सम्पूर्ण जिला धमतरी
20	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
21	श्री विजय कुमार खण्डेलवाल	सहा.अभि.ज.संसा.संभाग रूद्री	सम्पूर्ण जिला धमतरी
22	श्री पी के लाल	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग रूद्री	सम्पूर्ण जिला धमतरी

जिला बालोद

1	श्री गौरव सिंह	उप अभियंता जल संसाधन खरखरा मोहंदीपाट, बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
2	श्री एस.के. वर्मा	उप अभियंता जल संसाधन खरखरा मोहंदीपाट, बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
3	श्री गोपी कृष्णा शर्मा	उप अभियंता जल संसाधन खरखरा मोहंदीपाट, बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
4	श्री निरंजन राम	उप अभियंता खरखरा मोहंदीपाट बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
5	श्री आर.एन. सिन्हा	उप अभियंता जल संसाधन खरखरा मोहंदीपाट, बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
6	श्री एस.के. अग्रवाल	उप अभियंता जल संसाधन खरखरा मोहंदीपाट, बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद

जिला दुर्ग

1	श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल	सहायक अभियंता छ0ग0ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
2	श्री के.आर.राजपूत	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, रूआंबांधा दुर्ग,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
3	श्री जितेन्द्र कुमार मेश्राम	कार्यपालन अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
4	श्री सैय्यद जमील अहमद	सहायक यंत्री नगर निगम चरोदा, भिलाई	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
5	श्री एच. एल. चतुर्वेदी	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
6	श्री पी आर देशमुख	सहायक पंजीयक कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें दुर्ग संभाग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
7	श्री अजय कुमार सिंह	प्राध्यापक शा.वि.या.तामस्कर स्व. महाविद्यालय दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
8	श्री संजय अग्रवाल	उप अभियंता, नगर निगम भिलाई	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
9	श्री ए अर रंहगडाले	उप अभियंता, नगर पालिक निगम दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
10	श्री डी. के. सिंह	उप वनमंडल अधिकारी, वन मंडल, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
11	श्री बिरेन्द्र वैष्णव	उप अभियंता, लो.स.या. धमधा, मों नं.	सम्पूर्ण जिला दुर्ग

12	श्री हंसराज ठाकुर	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय बोरी विकासखंड धमधा दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
जिला बेमेतरा			
1	श्री धनेश साहू	वनपरिक्षेत्र अधिकारी, साजा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
2	श्री राजेश बंजारे	सी.एम.ओ. देवकर	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
3	श्री आई.पी. दिनकर	सहायक प्रोफेसर शा.महा.वि. साजा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
4	श्री एच एस राजपूत	उप संचालक कृषि	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
5	डॉ.डी.डे.	प्राचार्य, शा.महा.बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
6	श्री सतीश शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
जिला कांकेर			
1	श्री तुलाराम मधुकर	उप अभियंता पीएचई अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
2	श्री अशोक कुमार गाईन	मत्स्य निरीक्षक पखांजूर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
3	श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वन विकास निगम मुल्ला	सम्पूर्ण जिला कांकेर
4	श्री संतोष सोनी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग भानुप्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
5	श्री बी आर ठाकुर	रोजगार अधिकारी कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
6	श्री ए. के. साय पैकरा	जिला योजना अधिकारी	सम्पूर्ण जिला कांकेर
	श्री बीरबल	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
7	श्री भरत कुमार कन्नौजे	उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग क्र 1 कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
जिला नारायणपुर			
1	श्री पीलू राम बघेल	वन परिक्षेत्र अधिकारी, पूर्व सोनपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
2	श्री एफ0 टोप्पो	कार्यपालन अभियंता, लो0नि0वि0 नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
3	श्री संतोष कुमार वर्मा	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
4	श्री आशिष डे	मु0का0अधि0, जनपद पंचायत औरछा	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
जिला बस्तर			
1	श्री अजय सिंह कुशवाहा	उप संचालक उद्यानिकी, जगदलपुर	सम्पूर्ण जिला बस्तर
2	श्री ए0एल0 राठिया	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागिय कार्यालय जगदलपुर	सम्पूर्ण जिला बस्तर
3	श्री खोमेश कुमार देवांगन	उप अभियंता लोनिवि बस्तर	सम्पूर्ण जिला बस्तर
4	श्री साबू वर्गीस	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, बस्तर संभाग 2	सम्पूर्ण जिला बस्तर
5	श्री धनुष सिंह नेताम	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. जगदलपुर	सम्पूर्ण जिला बस्तर
6	श्री एस पी. मण्डावी	प्रभारी कार्यपालन अभियंता, लोक स्वा. यां जगदलपुर	सम्पूर्ण जिला बस्तर
7	श्री प्रवीण कुमार खेरडे	उप अभियंता, कार्यालय अभियंता जल संसाधन विभाग जगदलपुर	सम्पूर्ण जिला बस्तर

जिला दंतेवाड़ा

1	श्री गोपी कश्यप	सहायक अभियंता, क्रेडा दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
2	श्री राम कुमार देवांगन	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
3	श्री हेमन्त कुमार बंजारे	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
4	श्री जे.के. राठौर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें उप संभाग गीदम	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
5	श्री एस.के. देशपाण्डे	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
6	श्री श्याम कुमार	सहायक संचालक, रेशम विभाग दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
7	श्री डिकलेश कुमार	सहायक संचालक, उद्यान दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा

जिला बीजापुर

1	डा. अशोक कुमार शुक्ला	जिला आयुर्वेद अधिकारी बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
2	श्री खुशीराम डनसेना	क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक संचालक रेशम विभाग बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
3	श्री एम.पी. खरे	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
4	श्री कोटेश्वर राव चापड़ी	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
5	आदित्य नारायण साहू	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
6	श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
7	श्री जी' चलमैया	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
8	श्री अनिल भास्करन	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
9	श्री शंकर लाल कुलदीप	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
10	श्री लुपेश कुमार	उप अभियंता, लोक लोक निर्माण विभाग बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
11	श्री एस. के गजभिये	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर

विधानसभा निर्वाचन-2018, उड़नदस्ता/स्थैतिक निगरानी दल हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी के नाम

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	क्षेत्र के नाम जहाँ पर उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है
1	2	3	4
जिला सूरजपुर			
उड़नदस्ता प्रभारी			
1	श्री शैलेन्द्र कुमार पाटले	उप अभियंता, लो.स्वा.या.वि. उपखण्ड सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

2	श्री सुरेन्द्र पैकरा,	उप अभियंता जनपद पंचायत रामानुजनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
3	श्री ऋषिकांत तिवारी	उप अभियंता ग्रा.यां.से. प्रेमनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
4	श्री लोकेश राजवाड़े	उप अभियंता जल संसाधन विभाग ओड़गी	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
5	श्री आर.एस. ठाकुर	उप अभियंता जल संसाधन विभाग भैयाथान	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
6	श्री विकाश प्रशांत	उपअभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड सूरजपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
7	श्री विमलेश सिंह	उपअभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपसंभाग प्रतापपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
8	श्री अविनाश राज सिन्हा	उप यंत्री ग्रा.यां.से. उप संभाग प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री सबल साय तिर्की	उप अभियंता, ग्रामीण सेवा सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
2	श्री योगेन्द्र कुमार मिश्रा	उप अभियंता ग्रा.वि. संभाग छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
3	श्री सुशील कुमार एक्का	उपअभियंता, छ०ग०ग्रा०स०वि० अभि० सूरजपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
4	श्री श्यामलाल	उपअभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि. अभिकरण सूरजपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
5	श्री सुनील गुप्ता	उपअभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि. अभिकरण सूरजपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
6	श्री अजय कुमार पटेल	उपअभियंता, छ०ग०ग्रा०स०वि० अभि० सूरजपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
7	श्री राजू प्रकाश जांगड़े	उपअभियंता विद्युत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग सूरजपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
8	श्री अमित राय	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
9	श्री अमित कुमार तामकर	उप अभियंता ग्रा.यां.से. (जनपद पंचायत) ओड़गी	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
10	श्री किशोर कुमार खलखो	उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सूरजपुर,	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
11	श्री रमेश शरण सिंह	बी.आर.सी. प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
12	श्री धमेन्द्र सिंह	तकनीकी सहायक मनरेगा प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
13	श्री मनोज पैकरा	उप अभियंता जनपद पंचायत प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
14	श्री पंकज कुमार गुप्ता	उप अभियंता ग्रा. यां. से. उप संभाग प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

जिला सरगुजा

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री मनीष सूर्यवंशी	नयाब तहसीलदार, लुण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
2	श्री डीके जैन	उप अभियंता, पीएचई, लुण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
3	श्री देवेंद्र चौधरी	नयाब तहसीलदार, लुण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
4	श्री बीके यादव	उप अभियंता, ग्रामीण या. विभाग, लुण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

5	श्री गोकुल प्रसाद दिनकर	एसएसएलआर, अंबिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
6	श्री अरविंद गुप्ता	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अंबिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
7	श्री भूषण मंडावी	नायब तहसीलदार, अंबिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
8	श्री सौरभ पांडे	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र -1, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
9	श्री विष्णु गुप्ता	एसएसएलआर, अंबिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
10	श्री कार्तिक केरकेटा	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र -1, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
11	श्री अजीत चौबे	एसएसएलआर, अंबिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
12	श्री बी.डी. विश्वकर्मा	उपअभियंता, कार्यालय जनपद पंचायत, लखनपुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
13	श्री शिवनारायण राठिया	नायब तहसीलदार, उदयपुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
14	श्री मानस गुप्ता	उपअभियंता, कार्यालय जनपद पंचायत, उदयपुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
15	श्री वेदराम चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार, बतौली	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
16	श्री सौरभ गुप्ता	उपअभियंता, कार्यालय जनपद पंचायत, बतौली	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
17	श्री मोहनलाल भारतद्वज	नायब तहसीलदार, सीतापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
18	श्री तपन चक्रेश	उपअभियंता, कार्यालय जनपद पंचायत, सीतापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
19	श्री अमरनाथ श्याम	नायब तहसीलदार, मैनपाट	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
20	श्री बीके जैन	उपअभियंता, कार्यालय जनपद पंचायत, मैनपाट	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

जिला रायगढ़

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री पी.के. त्रिपाठी	उप वन क्षेत्रपाल, नारंगी क्षेत्र सर्वे ईकाई-वन मण्डल, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
2	श्री यशमोहन नायक	उप वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
3	श्री भजन साय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लैलूगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
4	श्री रामखिलावन केवर्त	उप वन क्षेत्रपाल, उप मण्डल कार्यालय, घरघोड़ा,	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
5	श्री चेतुराम व्यवहारे	उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्था. संपरीक्षा, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
6	श्री वेदराम साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
7	श्री सी.आर. राठिया	उप वन क्षेत्रपाल, उप मण्डल कार्यालय, घरघोड़ा, परिक्षेत्र	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
8	श्री विजय कुमार दुबे	कृषि विकास विस्तार अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
9	श्री शैलेश पिस्टा	सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
10	श्री मधुसुदन तिवारी	उप वन क्षेत्रपाल, कार्यालय आयोजना, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
11	श्री नितेश उपाध्याय	मु.का.अ. जन. पंचा. पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
12	श्री संदीप पोयाम	मु.का.अ. जन. पंचा. बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
13	श्री हीरालाल साहू	उप वन क्षेत्रपाल, प.स. बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
14	सुरेन्द्र कुमार अजय	उप वन क्षेत्रपाल, विशेष कर्तव्य, गोमण्डा, सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
15	श्री श्याम सुन्दर बेहरा	उप वन क्षेत्रपाल, विशेष कर्तव्य,, सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
16	श्री ओ. पी. शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधि. जन. पंचा. खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
17	श्री प्यारे लाल सिदार	उप वन क्षेत्रपाल, खरसिया परिक्षेत्र, प.स. खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
18	श्री कार्तिकराम खम्हारी	उप वन क्षेत्रपाल, खरसिया परिक्षेत्र, विशेष कार्य, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

19	श्री सचिन गुप्ता	उप अभियंता, जनपद पंचायत, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
20	श्री नरेश चौधरी	उप वन क्षेत्रपाल, खरसिया परिक्षेत्र, विशेष कार्य, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
21	श्री छेरका राम बंजारे	उप वप क्षेत्रपाल, खरसिया परिक्षेत्र, प.स. जोंबी	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
22	श्री आझामणी पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
23	श्री शोभाराम थावईत	उप वप क्षेत्रपाल, तमनार परिक्षेत्र, प.स. उरबा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
24	श्री पी.सी.एस. पैकरा	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वि. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
25	श्री राजेश कुमार चौहार	उप वप क्षेत्रपाल, तमनार परिक्षेत्र, प.स. कोड़केल	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

जिला कोरबा

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री अजय प्रकाश कवर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
2	श्री गजेंद्र सिंह कवर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
3	श्री ललित प्रसाद रवींद्र	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
4	श्री सुधीर कुमार विंधराज	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
5	श्री कौशल कुमार कुशवाहा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
6	श्री गोविन्द प्रसाद पुरेन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
7	श्री संजु कुमार पाटले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
8	श्री रजनीश सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
9	श्री कुलदीप कुमार रात्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
10	श्री देवदत्त जोगांश	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
11	श्री सज्जाद मोहम्मद	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
12	श्री धनश्याम सिंह कंवर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
13	श्री एल्विन रोबर्ड	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
14	श्री हेमंत कुमार भरद्वाज	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
15	श्री अरविंद कुमार देवांगन	सहायक विकास विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
16	श्री राम लाल रवींद्र	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
17	श्री तम्मपाल सिंह पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
18	श्री सीता राम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
19	श्री राजेंद्र कुमार बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
20	श्री जोहन लाल खुटे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
21	श्री कमल सिंह धुव	सहकारिता निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला कोरबा
22	श्री पीयूष कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
23	श्री महेत्तर सिंह गोड	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
24	श्री रुद्रेश्वर सिंह मरावी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
25	श्री संजय पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
26	श्री देव शरण पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
27	श्री टिकेश्वर कुमार सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
28	श्री विसवेश दूबे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
29	श्री हेमंत कुमार दूबे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा

30	श्री दिनेश कुमार नोरगे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
31	श्री दीपक कुमार खरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
32	श्री धनेश्वर प्रसाद लहरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
33	श्री श्याम लाल लहरे	मतस्य निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला कोरबा
34	श्री अभिनीत राय	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
35	श्री रघु नन्दन सिंह कंवर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
36	श्री लक्ष्मी नारायण पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा

जिला बिलासपुर

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री मुकुन्द माधव दीक्षित	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री बिरेन्द्र कुमार नेल्सन,	वनक्षेत्रपाल, कोटा बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री राजेन्द्र बंजारे,	सहायक अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री एच. एल. जैन,	उप अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री यू. सी. देवांगन	सहायक प्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी. हाईटेक बस स्टैण्ड तिफरा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री डी के रावत	उप अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री रमेश कुमार रोहिणी	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता सेतु निर्माण संभाग लोक निर्माण विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री के.के. दुबे	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री सी.एस. भारद्वाज	सहायक भौमिकी विद, कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री महेश प्रसाद शर्मा,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
6	श्री शंकर दयाल शर्मा	सहायक अभियंता, नगर पालिका परिसद, रतनपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
7	श्री एस.आर. चन्द्रा	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
8	श्री ए.के. नाथ,	सहायक अभियंता, नगर पालिका परिषद तखतपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
9	श्री शैलेन्द्र दास	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग, तखतपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
10	श्री आनंद शुक्ला,	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
11	श्री एन.पी. कुम्भज,	मानचित्रकार, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग, जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
12	श्री सी.आर. सोनवानी,	प्रभारी सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
13	श्री उदयभान सिंह	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

14	श्री जसवंत सिंह क्षत्री,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
15	श्री अविनाश गुप्ता	उप अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
जिला बलौदा-बाजार			
उड़दस्ता प्रभारी			
1	श्री महीप यादव	श्रम उप निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
2	श्री के. एस. पैकरा	उद्यानिकी विकास अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
3	श्री एल.एल. ध्रुव	अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
4	श्री डी.के. भरद्वाज	सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
5	श्री देवेन्द्र नेताम	सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
6	श्री उमाशंकर पटेल	विकास विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
7	श्री रितेश यादव	उप अभियंता जनपद पंचायत बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
8	श्री वायल रोबर्ट	मत्स्य निरीक्षक पलारी	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
9	श्री धर्म सिंह तोमर	उद्यानिकी विकास अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
10	श्री राजेंद्र मेहर	सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
11	श्री अगवान	सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
12	श्री मनोज कुमार सिन्हा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
13	श्री त्रिभुवन वर्मा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी पलारी	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
14	श्री जयराम पटेल	उप अभियंता जल संसाधन विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
15	श्री सूरज वर्मा	उप अभियंता जल प्रबंध उप संभाग क्र.-7 बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
16	श्री बी.पी. शर्मा	मत्स्य निरीक्षक बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार
17	श्री राकेश	मत्स्य निरीक्षक बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा-बाजार

18	श्री लालाराम यदु	श्रम निरीक्षक बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा- बाजार
19	श्री एस.एम. मिश्रा	मत्स्य निरीक्षक भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदा- बाजार
20	श्री मनोज मंडलेश्वर	श्रम निरीक्षक बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा- बाजार
21	श्री के.एस. ध्रुव	सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा- बाजार
22	श्री पी.एस. ध्रुव	सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा- बाजार
23	श्री देवेश चतुर्गोष्ठि	सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदा- बाजार

जिला बालोद

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री प्रशांत कुमार सांडिल्य	उप अभि. जनपद बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
2	श्री तरुण कुमार यादव	ग्रा.वि.उ.अधि. उद्यान विभाग	सम्पूर्ण जिला बालोद
3	श्री अनुपरमन साहू	उप अभि. ग्रा.वि. जनपद पंचा. गुरुर	सम्पूर्ण जिला बालोद
4	श्री विजय निकोसे	परि.अधि. उद्यान विभाग	सम्पूर्ण जिला बालोद
5	श्री बी.एल.नेताम	सहकारी निरीक्षक उप.सह.स. बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
6	श्री विनोद कुमार देवान	उप अभि.ग्रा.वि. जन.पं. गुरुर	सम्पूर्ण जिला बालोद
7	श्री अनेश कुमार शर्मा	लेखापाल नगर पंचा. अर्जुन्दा	सम्पूर्ण जिला बालोद

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री कोमल सिंह ध्रुव	उप अभि.पंचा.एवं.ग्रा.वि.वि. जन.पं. बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
2	श्री गुमानसिंह चन्द्राकर	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
3	श्री भूपेन्द्र सिंह राणा	ग्रा0वि0उ0अधि0 कार्या.सहा.संचा. उद्यान जिला बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
4	श्री संतोष पासी	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत डौण्डी	सम्पूर्ण जिला बालोद
5	श्री यशवंत कुमार ध्रुव	ग्रा0वि0उ0अधि0 कार्या.सहा.संचा. उद्यान जिला बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
6	श्री मुकेश कुमार साकरकर	उप अभि.पंचा.एवं.ग्रा.वि.वि. जन.पं. गुण्डरदेही	सम्पूर्ण जिला बालोद
7	श्री रामयश पटेल	सहा0राजस्व निरी. कार्या नगर पंचायत डौण्डीलोहारा	सम्पूर्ण जिला बालोद

जिला कांकेर

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री आर एस धीवर	उप अभियंता जल संसाधन कापसी	सम्पूर्ण जिला कांकेर
2	श्री चमन लाल नाग	सहायक ग्रेड 02 महिला एवं बाल विकास विभाग पखांजूर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
3	श्री वीरेन्द्र कुमार कोडोपी	उप अभियंता जल संसाधन कापसी	सम्पूर्ण जिला कांकेर
4	श्री अमित कुमार	उप राजस्व निरीक्षक अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
5	श्री चुन्नी लाल स्वर्णकार	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोयलीबेड़ा	सम्पूर्ण जिला कांकेर

6	श्री आर एन सरकार	सहायक विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा	सम्पूर्ण जिला कांकेर
7	श्री डी आर कोमरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
8	श्री संजय मंडल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
9	श्री मनोहर लाल चंद्रवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
10	श्री डोमेन्द्र धारीवाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
11	श्री किरण भण्डारी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भानुप्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
12	श्री राकेश कुमार शोरी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भानुप्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
13	श्री उपेन्द्र कुमार मेश्राम	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
14	श्री हीरा सिंह ठाकुर	डिप्टी रेंजर कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
15	श्री लोमन सिंह नेताम	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
16	श्री ए. एस. खान	फिल्ड ऑफिसर रेशम कोसा बीज केन्द्र बागोड़ नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
17	श्री के. एल. साहू	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक रेशम केन्द्र माकड़ी कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
18	श्री एस. के. मंदनवार	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक कोसा बीज परसोदा चारामा	सम्पूर्ण जिला कांकेर
19	श्री राकेश कुमार साहू	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
20	श्री उस. के. सार्वी	फिल्ड ऑफिसर रेशम कोसा बीज केन्द्र बाबूकोहका चारामा	सम्पूर्ण जिला कांकेर
21	श्री बी. आर. दर्दो	व अ वि अधिकारी कांकेर शासकीय उद्यान रोपणीय कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री आई एल कुमेटो	करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
2	श्री आर एस सलाम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
3	श्री प्रतीक कुमार साहू	प्राचार्य आई टी आई अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
4	श्री लखेन्द्र कश्यप	बी. आर. सी. अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
5	श्री एस. पी. राठिया	अधीक्षक उद्यान विभाग संजय निकुंज अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
6	श्री जीवन लाल देहारी	सहायक विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
7	श्री रिकेश सिन्हा	प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
8	श्री शैलेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता जनपद पंचायत अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
9	श्री एच. एल. नाग	प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
10	श्री जीवन कंवर	नाप तौल निरीक्षक कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
11	श्री मुकेश कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
12	श्री आर डी ठाकुर	स. वि.वि.अ. दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
13	श्री टी. एस. देशमुख	स. वि.वि.अ. दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
14	श्री उएस के पाण्डे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
15	श्री धनंजय साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भानुप्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
16	श्री कुलदीप साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भानुप्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
17	श्री धर्मराज दर्दो	उप अभियंता ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
18	श्री के पी श्रीवास	प्रबंधक खादी ग्रामोदयोग कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
19	श्री प्रमोद कुमार मेश्राम	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
20	श्री संदीप प्रधान	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
21	श्री एच. आर. देवांगन	विकास विस्तार अधिकारी नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर

22	श्री पी के जैन	उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
23	श्री रामगोपाल वट्टी	सहायक विस्तार अधिकारी नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
24	श्री तेज सिंह नेताम	उप अभियंता जल संसाधन विभाग कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
25	श्री ए के दिल्लीवार	सहायक मत्स्य अधिकारी कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर

जिला कोण्डागांव

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री सुरेश धुव	उपनिरीक्षक थाना बांसकोट	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
2	श्री सुनील खेस	उपनिरीक्षक थाना धनोरा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
3	श्री रविशंकर धुव	निरीक्षक थाना ईरागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
4	श्री रुद्राक्ष बागमारे	निरीक्षक थाना बड़ेडोंगर	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
5	श्री भीमसेन यादव	निरीक्षक थाना उरन्दाबेड़ा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
6	श्री रोहित कुमार बंजारे	निरीक्षक थाना माकड़ी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
7	श्री ओंकार दीवान	निरीक्षक थाना मर्दापाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री आलक्ष्मी राम	उपनिरीक्षक थाना केशकाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री रोहित कुमार खुटे	उपनिरीक्षक थाना विश्रामपुरी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री फैजुल होदा शाह	उपनिरीक्षक थाना धनोरा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री संजय कुमार सिंधे	उपनिरीक्षक थाना ईरागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री शिशिरकांत सिंग	उपनिरीक्षक थाना बड़ेडोंगर	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री जितेंद्र विजयवार	उप निरीक्षक थाना उरन्दाबेड़ा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री अजय झा	उपनिरीक्षक थाना फरसगांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री प्रहलाद यादव	उपनिरीक्षक थाना कोण्डागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री कृष्णा साहू	उपनिरीक्षक थाना कोण्डागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री सुमनलाल पोया	उपनिरीक्षक थाना माकड़ी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
	श्री मुकेश शर्मा	उपनिरीक्षक थाना मर्दापाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव

श्री अनिल चंद	उपनिरीक्षक थाना बयानार	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री सिंगारी राम पोर्ते	राजस्व निरीक्षक केशकाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री कौशल राम सिन्हा	राजस्व निरीक्षक बड़ेराजपुर	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री गुमान सिंह दीवान	राजस्व निरीक्षक चिपावंड	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री रामजी साहू	राजस्व निरीक्षक धनोरा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री फूलप्रसाद मंडावी	राजस्व निरीक्षक ईरागाँव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री कैलाश श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक फरसगाँव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री शेखचन्द बघेल	राजस्व निरीक्षक चनियागाँव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री घनश्याम नेताम	राजस्व निरीक्षक कोण्डागाँव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री जयलाल देवांगन	राजस्व निरीक्षक कोण्डागाँव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री ईश्वर नाग	राजस्व निरीक्षक माकड़ी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री अरुण सिंह	राजस्व निरीक्षक मर्दापाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
श्री सुरेन्द्र बागड़े	राजस्व निरीक्षक किर्बईबालेंगा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव

जिला नारायणपुर

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री डेमनलाल देशमुख	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, ना.पुरमो न0 9407763286	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
---	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.